

टाइपिंग टेस्ट के लिए निर्देश

विषय: कनिष्ठ सचिवालयी सहायक (जे.एस.ए.) हिंदी टाइपिंग परीक्षा ।

1. अपात्रता, त्रुटि और समय की हानि से बचने के लिए दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ने के बाद, आगे बढ़ने के लिए चेक बॉक्स पर क्लिक करें।
2. कम्प्यूटर दक्षता परीक्षा (चरण-II) एवं टाइपिंग स्पीड टेस्ट (चरण-II) दिनांक 21.12.2020 की उसी तारीख को होंगे।
3. अधिसूचना में यथा उल्लिखित दोनों परीक्षा क्लाइफाइंग प्रकृति की हैं।
4. अभ्यर्थियों को प्रदर्शित पाठ या टेक्स्ट को डेस्कटॉप कंप्यूटर पर हिंदी में टाइप करना होगा।
5. चरण-II एवं III परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के लिए दोनों परीक्षाओं में उपस्थित होना अनिवार्य है।
6. हिंदी माध्यम के लिए विकल्प का चयन करने वाले अभ्यर्थियों की न्यूनतम टाइपिंग स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए जो 9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के समान है।
7. कंप्यूटर सिस्टम में अभ्यर्थी द्वारा लॉग इन करने के बाद, उसे मॉक टाइपिंग टेस्ट की शुरुआत करनी है और इसे 2 मिनट में पूर्ण करना है, जिसमें अभ्यर्थी की-बोर्ड और कुंजी ऑपरेशन की जांच करेगा। मॉक टेस्ट के बाद 10 मिनट का ब्रेकटाइम होगा। यदि कोई अभ्यर्थी की सिस्टम कुंजियां काम नहीं कर रही हैं, तो इस ब्रेक टाइम के दौरान उन्हें तुरंत पर्यवेक्षक को रिपोर्ट करके इसका समाधान करा लेना होगा। एकचुअल हिंदी टाइपिंग टेस्ट अभ्यर्थियों के लिए दी गई जानकारी के अनुसार होगा।

विषय	परीक्षा की अवधि	कुल अवधि (सामान्य अभ्यर्थियों के लिए)	अनुपूरक समय वाले अभ्यर्थियों के लिए अवधि (स्क्राइब अभ्यर्थी)
कनिष्ठ सचिवालयी सहायक हिंदी टाइपिंग परीक्षा	2+10+10 (स्क्राइब अभ्यर्थी के लिए 15 मिनट)	22 मिनट	27 मिनट

8. जिन दृष्टि बाधित आवेदकों ने ऑनलाइन आवेदन फार्म में लेखक के विकल्प का चयन किया है, उन्हें टाइपिंग टेस्ट हेतु अपने पैरा वाचक को स्वयं लाना होगा। पैरा वाचक नियत समय अवधि के अन्दर दृष्टि बाधित अभ्यर्थियों के लिए पैरे को पढ़ेंगे।

9. जिन दिव्यांग अभ्यर्थियों ने शारीरिक दिव्यांगता की वजह से टाइपिंग टेस्ट के लिए स्वयं को स्थायी रूप से असक्षम होने का दावा किया है, उन्हें ऐसी परीक्षा में बैठने और क्वालिफाई करने से छूट दी जा सकती है, बशर्ते कि वह अभ्यर्थी सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी अर्थात् सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के सिविल सर्जन, से विनिर्दिष्ट प्रपत्र (दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर उपलब्ध) में एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें, जिसमें उसे टाइपिंग टेस्ट के समय शारीरिक अक्षमता की वजह से टाइपिंग टेस्ट के लिए स्थायी रूप से असक्षम होने की घोषणा की गई है। अन्यथा टाइपिंग टेस्ट में छूट के उनके दावे पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

10. इसके अतिरिक्त, ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा की सूचना के अनुलग्नक-X से अनुलग्नक-XII, जो भी लागू हो, के अनुसार विनिर्दिष्ट प्रपत्र में संगत चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके अपने दावे को पुष्ट करना होगा।

11. हिंदी टाइपिंग टेस्ट लिए के 10 मिनट।

12. हिंदी के टाइपिंग टेस्ट के लिए फ्रॉन्ट मंगल होगा। की-बोर्ड ले-आउट हिंदी रेमिंगटन गेल, में उपलब्ध होगा।

13. परीक्षा के समय विशिष्ट कुंजी या ऐसी किसी भी कुंजी का उपयोग न करें, जो प्रदर्शित पाठ में दिए गए शब्दों के टाइपिंग के लिए आवश्यक नहीं है। प्रदर्शित पाठ को छोड़कर कोई भी विशेष वर्ण/प्रतीक न लिखें।

14. प्रदर्शित पाठ में उल्लेखित शब्द बिना किसी त्रुटि के टाइप करें। किसी शब्द को टाइप करते समय, उस शब्द को टाइप किए गए पाठ के भीतर ठीक करने के लिए बैक स्पेस कुंजी और ऐरो-कुंजी (arrowkey) का उपयोग करें।

15. परीक्षा के दौरान धैर्य रखें और शांत रहें। आप इनमें से किसी भी समस्या के लिए निरीक्षक से संपर्क कर सकते हैं, जैसे की:

क. की-बोर्ड संबंधी त्रुटि

ख. मशीन ऑटोमेटिक शटडाउन

ग. पावर में बाधा

घ. ब्राउज़र क्रैश

ड. सत्र कृत्रिम रूप से समाप्त होना

16. यदि आप शांति भंग करते हैं या किसी भी तरीके से परीक्षा में बाधा उत्पन्न करते हैं या गलत तरीके अपनाते हैं/ब्लूटूथ डिवाइस, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, कैमरे आदि जैसे प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करते हैं, तो आपकी उम्मीदवारी को रद्द दिया जा सकता है और आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
17. घड़ी को सर्वर पर इंस्टॉल किया गया है, इसलिए परीक्षा की समाप्ति का शेष समय आपके कंप्यूटर स्क्रीन के शीर्ष पर दाएं कोने में काउंट डाउन टाइमर में प्रदर्शित होता रहेगा।
18. दिए गए समय के अनुसार टाइपिंग टेस्ट निर्धारित समय पर स्वतः सबमिट हो जाएगा।
19. उम्मीदवारों को परीक्षा समाप्त होने तक परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

क्या न करें

1. दिए गए टेक्स्ट को टाइप करने के लिए आवश्यक कुंजियों (keys)के अलावा किसी अन्य **कुंजी** या **कुंजी संयोजन** का उपयोग न करें।
2. दिए गए टेक्स्ट में उल्लिखित शब्दों के अलावा किसी विशेष वर्ण /प्रतीक को प्रविष्ट न करें। (इससे शब्द छूट सकते हैं, टाइपिंग त्रुटि हो सकती है, जिसे टाइपिंग की त्रुटि के रूप में मूल्यांकन किया जा सकता है)।
3. टेस्ट सबमिट हो जाने पर और सारांश प्रदर्शित होने के बाद बक स्पेस या किसी अन्य कुंजी को न दबाएं।